



भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक

14 मार्च 2008



खंड 23

संख्या 11

1. भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां

(करोड़ रुपए)

मद	2007	2008		घट-बढ़	
	9 मार्च	29 फरवरी	7 मार्च #	सप्ताह	वर्ष
1	2	3	4	5	6
जारी नोट	4,98,632	5,66,316	5,76,374	10,058	77,742
संचलन में नोट	4,98,613	5,66,297	5,76,359	10,062	77,746
बैंकिंग विभाग में रखे नोट	19	19	15	-4	-4
जमाराशियां					
केंद्र सरकार	16,576	48,638	31,267	-17,371	14,691
बाजार स्थिरीकरण योजना	49,728	1,75,089	1,72,178	-2,911	1,22,450
राज्य सरकार	41	41	41	—	—
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	1,67,623	2,54,217	2,67,404	13,187	99,781
अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	2,139	3,393	3,382	-11	1,243
अन्य बैंक	8,015	12,496	11,998	-498	3,983
अन्य	11,116	11,986	11,819	-167	703
अन्य देयताएं	1,79,492	1,88,442	2,14,596	26,154	35,104
कुल देयताएं / आस्तियां	9,33,361	12,60,618	12,89,058	28,440	3,55,697
विदेशी मुद्रा आस्तियां ⁽¹⁾	8,28,108	11,62,671	11,89,438	26,767	3,61,330
सोने के सिक्के और सोना-चांदी ⁽²⁾	30,499	38,154	38,154	—	7,655
रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित)	64,799	51,432	53,269	1,837	-11,530
ऋण और अग्रिम					
केंद्र सरकार	—	—	—	—	—
राज्य सरकारें	150	—	—	—	-150
नाबार्ड	—	—	—	—	—
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	457	773	1,118	346	661
अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	21	24	29	5	8
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	—	—	—	—	—
भारतीय निर्यात-आयात बैंक	—	—	—	—	—
अन्य	84	403	83	-320	-1
खरीदे और भुनाए गए बिल					
वाणिज्यिक	—	—	—	—	—
खजाना	—	—	—	—	—
निवेश ⁽³⁾	3,973	2,750	2,750	—	-1,223
अन्य आस्तियां	5,271	4,411	4,216	-195	-1,055

(1) विदेशी प्रतिभूतियां, विदेशों में रखी गई राशियां और विदेशी शेयरों / बांडों में किए गए निवेश शामिल हैं।

(2) 17 अक्टूबर 1990 से स्वर्ण का मूल्य निर्धारण अंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्यों के आसपास किया जाता है।

(3) इसमें विदेशी शेयरों और बांडों तथा भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियों में किए गए निवेश शामिल नहीं हैं।

2. विदेशी मुद्रा भंडार

मद	7 मार्च 2008 को		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़							
			सप्ताह		मार्च 2007 की समाप्ति पर		दिसंबर 2007 की समाप्ति पर		वर्ष	
	करोड़ रुपए	मिलियन अ.डॉ.	करोड़ रुपए	मिलियन अ.डॉ.	करोड़ रुपए	मिलियन अ.डॉ.	करोड़ रुपए	मिलियन अ.डॉ.	करोड़ रुपए	मिलियन अ.डॉ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कुल भंडार	12,29,342	303,460	26,811	2,225	3,61,120	104,281	1,44,322	28,144	3,68,662	109,050
(क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	11,89,438	293,471	26,767	2,221 *	3,52,841	101,547	1,38,953	26,918	3,61,330	106,413
(ख) स्वर्ण	38,154	9,558	—	—	8,581	2,774	5,335	1,230	7,655	2,675
(ग) विशेष आहरण अधिकार	1	—	—	—	-7	-2	-12	-3	-7	-2
(घ) आइएमएफ में प्रारक्षित अंश की स्थिति**	1,749	431	44	4	-295	-38	46	-1	-316	-36

* : अ.डॉ. के रूप में दर्शाई गई विदेशी मुद्रा आस्तियों में भंडार में रखी गई अमरीकी मुद्राओं से इतर मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन) में होनेवाली मूल्यवृद्धि / मूल्य-संकट का प्रभाव शामिल है। विस्तृत विवरण के लिए कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन का वर्तमान सांख्यिकी खंड देखें।

** : अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) में प्रारक्षित स्थिति अर्थात् प्रारक्षित अंश की स्थिति (आरटीपी) जिसे 23 मई 2003 से 26 मार्च 2004 तक जापान मद के रूप में दिखाया गया है उसे अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम संव्यवहार के अनुसार 2 अप्रैल 2004 को समाप्त सप्ताह से भंडार में शामिल किया गया है।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंक - भारत में कारोबार

(करोड़ रुपए)

मद	29 फरवरी 2008 को बकाया #	पखवाड़े में	निम्नलिखित की तुलना में घटबढ़			
			वित्त वर्ष में अब तक		वर्ष-दर-वर्ष	
			2006-2007	2007-2008	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7
बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं						
बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	39,512	-332	-1,465	-1,260	3,621	3,899
बैंकों से उधार ⁽¹⁾	26,442	-1,964	586	-8,957	2,378	-3,341
अन्य मांग और मीयादी देयताएं ⁽²⁾	16,994	-708	746	4,708	-106	7,358
अन्य के प्रति देयताएं						
कुल जमाराशियां	30,80,859	43,539	3,81,878	4,72,550	4,93,303	5,89,933
		(1.4)	(18.1)	(18.1)	(24.7)	(23.7)
मांग	4,59,128	23,148	30,534	29,991	67,214	63,954
मीयादी	26,21,731	20,391	3,51,344	4,42,559	4,26,089	5,25,978
उधार ⁽³⁾	1,07,723	3,951	3,760	21,887	8,618	20,819
अन्य मांग और मीयादी देयताएं	2,90,773	7,411	45,372	48,769	48,130	56,621
रिजर्व बैंक से उधार	773	773	-931	-5,472	-421	216
पास में नकदी एवं रिजर्व बैंक के पास जमा शेष	2,72,179	19,687	28,438	75,848	44,260	1,03,635
पास में नकदी	17,962	1,332	374	1,853	2,675	4,542
रिजर्व बैंक के पास जमा शेष	2,54,217	18,355	28,063	73,995	41,585	99,093
बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
अन्य बैंकों में जमाशेष ⁽⁴⁾	35,862	-1,843	-104	6,774	2,715	9,503
मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	13,033	-1,859	258	-5,234	2,969	-844
बैंकों को अग्रिम	3,246	216	1,283	-2,957	1,894	-2,228
अन्य आस्तियां	28,895	-1,733	6,352	5,392	12,165	12,423
निवेश⁽⁵⁾	9,86,851	3,325	85,298	1,96,420	92,701	1,84,099
		(0.3)	(11.9)	(24.8)	(13.1)	(22.9)
सरकारी प्रतिभूतियों में	9,67,011	3,287	86,726	1,92,031	94,841	1,79,544
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	19,840	38	-1,428	4,389	-2,139	4,555
बैंक ऋण	22,51,213	41,481	3,39,932	3,22,300	4,24,650	4,04,204
		(1.9)	(22.6)	(16.7)	(29.9)	(21.9)
खाद्य ऋण	44,311	1,493	4,299	-2,209	3,542	-679
खाद्येतर ऋण	22,06,902	39,988	3,35,633	3,24,509	4,21,108	4,04,882
ऋण, कैश-क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट	21,58,309	40,048	3,35,725	3,16,683	4,12,157	3,92,129
देशी बिल - खरीदे गए	11,241	37	-835	-4,672	2,356	-839
भुनाए गए ⁽⁶⁾	37,267	1,038	898	5,968	3,397	5,553
विदेशी बिल - खरीदे गए	14,821	659	1,385	-1,317	2,860	362
भुनाए गए	29,575	-301	2,759	5,638	3,879	6,999
नकद-जमा अनुपात	8.83					
निवेश-जमा अनुपात	32.03					
ऋण-जमा अनुपात	73.07					

(1) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अपने प्रायोजक बैंकों से लिए गए उधारों को छोड़कर। (2) जहां बैंकिंग प्रणाली के प्रति किसी देयता को पहचानना संभव नहीं हुआ है वहां इसे 'अन्य के प्रति देयताएं' की तदनुसूची मदों में शामिल कर लिया गया है। (3) भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड और एक्जिम बैंक से इतर। (4) चालू खाते तथा अन्य खाते में। (5) इस सारणी में दिए गए निवेश सांख्यिकीय चालनिधि अनुपात (एसएलआर) प्रयोजन के लिए हैं और इसमें सारणी 5 में अलग से दिए गए अन्य निवेश शामिल नहीं हैं। (6) इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के पास पुनः भुनाए गए बिल शामिल नहीं हैं।

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े संबंधित अवधि में घटबढ़ प्रतिशत दर्शाते हैं।

टिप्पणी : 3 मई 2002 से हुए विलयनों के प्रभाव शामिल हैं।

4. आरक्षित नकदी निधि अनुपात और ब्याज दरें

(प्रतिशत प्रति वर्ष)

मद / सप्ताहांत	2007	2008					
	2 मार्च	25 जनवरी	1 फरवरी	8 फरवरी	15 फरवरी	22 फरवरी	29 फरवरी
1	2	3	4	5	6	7	8
आरक्षित नकदी निधि अनुपात (प्रतिशत) ⁽¹⁾	5.75	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50
बैंक दर	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
आइडीबीआई ⁽²⁾	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25
मूल उधार दर ⁽³⁾	12.25-12.50	12.75-13.25	12.75-13.25	12.75-13.25	12.75-13.25	12.50-13.25	12.25-13.00
जमा दर ⁽⁴⁾	7.50-9.00	8.25-9.00	8.25-9.00	8.25-9.00	8.25-9.00	8.25-9.00	8.25-9.00
मांग मुद्रा दर (न्यून/उच्च) ⁽⁵⁾							
- लिये गए उधार	5.25/10.00	4.50/8.40	1.00/8.75	4.50/8.25	4.50/6.94	4.50/8.70	3.50/9.00
- दिये गए उधार	5.25/10.00	4.50/8.40	1.00/8.75	4.50/8.25	4.50/6.94	4.50/8.70	3.50/9.00

(1) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) से संबंधित आरक्षित नकदी निधि अनुपात। (2) न्यूनतम मीयादी उधार दर (एमटीएलआर)। (3) पांच प्रमुख बैंकों से संबंधित मूल उधार दर। (4) जमा दर प्रमुख बैंकों की एक वर्ष से अधिक परिपक्वतावाली मीयादी जमाराशियों से संबंधित। (5) इन आंकड़ों में सहभागियों द्वारा सूचित कुल लेनदेन के 90-95 प्रतिशत का शुमार हो जाता है।

5. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण तथा शेयरों/डिबेंचरों/बाँडों/वाणिज्य पत्र आदि में निवेश के रूप में दी गई वित्तीय सहायता

(करोड़ रुपए)

यद	2007 - 2008			2006 - 2007		
	निम्नलिखित को बकाया		घट-बढ़ (3)-(2)	निम्नलिखित को बकाया		घट-बढ़ (6)-(5)
	2007	2008		2006	2007	
	30 मार्च	29 फरवरी		31 मार्च	2 मार्च	
1	2	3	4	5	6	7
1. बैंक ऋण	19,28,913	22,51,213	3,22,300 (16.7)	15,07,077	18,47,009	3,39,932 (22.6)
क. खाद्य ऋण	46,521	44,311	-2,209	40,691	44,990	4,299
ख. खाद्येतर ऋण	18,82,392	22,06,902	3,24,509 (17.2)	14,66,386	18,02,020	3,35,633 (22.9)
2. निवेश	83,394	93,534	10,140	79,464	80,071	607
क. वाणिज्यिक पत्र	8,978	12,680	3,702	4,821	6,792	1,970
ख. निम्न (क+ख) द्वारा जारी शेयर	18,344	27,026	8,682	12,775	17,586	4,811
क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	2,126	3,091	965	2,274	2,202	-71
ख) निजी कंपनी क्षेत्र	16,218	23,936	7,718	10,501	15,383	4,882
ग. निम्न (क+ख) द्वारा जारी बांड/ डिबेंचर	56,072	53,828	-2,244	61,868	55,694	-6,174
क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	28,472	27,548	-925	32,345	29,419	-2,926
ख) निजी कंपनी क्षेत्र	27,600	26,280	-1,320	29,523	26,275	-3,248
3. कुल (1+2)	19,65,786	23,00,436	3,34,650	15,45,851	18,82,091	3,36,240

टिप्पणी : 1. निवेश संबंधी आंकड़े सांविधिक धारा 42 (2) के अंतर्गत प्राप्त विवरणियों पर आधारित हैं।

2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत घटबढ़ दर्शाते हैं।

3. इनमें 3 मई 2002 से हुए विलय के प्रभाव शामिल हैं।

4. आंकड़ों के पूर्णिकन के कारण घटकों का योग कुछ भिन्न हो सकता है।

6. विदेशी मुद्रा दरें - हाजिर और वायदा प्रीमिया

विदेशी मुद्रा	2008					वार्षिक वृद्धि (+) / ह्रास (-) (प्रतिशत)				
	3 मार्च	4 मार्च	5 मार्च	6 मार्च +	7 मार्च	3 मार्च	4 मार्च	5 मार्च	6 मार्च +	7 मार्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर (रु. प्रति विदेशी मुद्रा)										
अमरीकी डॉलर	40.2600	40.2900	40.2900		40.5300	—	—	10.42		9.80
यूरो	61.2600	61.2000	61.2300		62.4000	—	—	-4.41		-6.43
फेडरॉ की सांकेतिक दरें (रु. प्रति विदेशी मुद्रा)										
अमरीकी डॉलर { खरीद	40.2500	40.2900	40.3000		40.5200	—	—	10.37		9.80
{ बिक्री	40.2600	40.3000	40.3100		40.5300	—	—	10.37		9.80
फ़ड { खरीद	79.8275	79.9750	79.9725		81.5350	—	—	7.14		5.28
स्टर्लिंग { बिक्री	79.8600	80.0125	80.0125		81.5700	—	—	7.13		5.28
यूरो { खरीद	61.2800	61.2200	61.2650		62.3850	—	—	-4.48		-6.39
{ बिक्री	61.3125	61.2400	61.2875		62.4125	—	—	-4.47		-6.40
100 येन { खरीद	39.1800	38.9500	38.9400		39.4975	—	—	-1.29		-3.25
{ बिक्री	39.1975	38.9625	38.9575		39.5150	—	—	-1.29		-3.25
अमरीकी डॉलर का अंतर-बैंक वायदा प्रीमियम (प्रतिशत वार्षिक)										
1 - माह	-3.35	-2.03	-1.28		0.19					
3 - माह	-1.49	-1.26	-0.77		0.03					
6 - माह	-0.36	-0.41	-0.17		0.33					

— : पिछले वर्ष के तदनुरूपी दिन बाजार बंद।

+ : बाजार बंद।

टिप्पणी : 1. एकीकृत विनिमय दर प्रणाली 1 मार्च 1993 से लागू हुई।

2. रिजर्व बैंक द्वारा 1 जनवरी 2002 से यूरो संदर्भ दर घोषित की गई।

7. मुद्रा स्टॉक : घटक और स्रोत

(करोड़ रुपए)

यद	निम्न को बकाया		निम्न की तुलना में घट-बढ़									
	2007 31 मार्च #	2008 29 फर. #	पखवाड़ा		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष - दर - वर्ष			
					2006-2007		2007-2008		2007		2008	
			राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
एम३	33,10,278	38,65,642	41,744	1.1	4,59,429	16.8	5,55,364	16.8	5,78,860	22.2	6,76,668	21.2
घटक (i+ii+iii+iv)												
(i) जनता के पास मुद्रा	4,83,471	5,53,881	-574	-0.1	71,123	17.2	70,410	14.6	71,176	17.2	69,639	14.4
(ii) बैंकों के पास मांग जमा	4,74,228	5,05,691	22,782	4.7	31,699	7.8	31,463	6.6	71,956	19.7	67,605	15.4
(iii) बैंकों के पास मीयादी जमा	23,45,083	28,01,016	19,239	0.7	3,58,508	18.8	4,55,933	19.4	4,35,828	23.9	5,39,338	23.8
(iv) रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमा	7,496	5,054	297	6.2	-1,901	-27.7	-2,442	-32.6	-99	-2.0	87	1.7
स्रोत (i+ii+iii+iv+v)												
(i) सरकार को निवल बैंक ऋण (क+ख)	8,38,177	8,55,576	7,818	0.9	58,866	7.7	17,399	2.1	41,819	5.3	30,115	3.6
(क) रिजर्व बैंक	5,752	-1,72,322	5,769		-27,938		-1,78,074		-52,673		-1,52,521	
(ख) अन्य बैंक	8,32,425	10,27,899	2,049	0.2	86,804	11.4	1,95,474	23.5	94,492	12.6	1,82,636	21.6
(ii) वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण (क+ख)	21,23,362	24,64,422	40,954	1.7	3,52,420	20.8	3,41,060	16.1	4,38,369	27.3	4,18,998	20.5
(क) रिजर्व बैंक	1,537	1,703	320	23.1	-3	-0.2	166	10.8	-245	-15.0	319	23.0
(ख) अन्य बैंक	21,21,825	24,62,718	40,634	1.7	3,52,423	20.8	3,40,894	16.1	4,38,614	27.3	4,18,679	20.5
(iii) बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	9,13,179	12,31,452	41,267	3.5	1,97,740	27.2	3,18,273	34.9	2,51,380	37.4	3,07,518	33.3
(iv) जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	8,286	8,851	—	—	-606	-6.9	564	6.8	-548	-6.3	703	8.6
(v) बैंकिंग क्षेत्र की मीयादी जमा से भिन्न निवल मुदेतर देयताएं उनमें से : रिजर्व बैंक की निवल मुदेतर देयताएं	5,72,727	6,94,659	48,295	7.5	1,48,991	32.0	1,21,932	21.3	1,52,160	32.9	80,666	13.1
	1,80,348	1,89,528	27,784	17.2	56,528	45.6	9,180	5.1	54,139	42.8	8,999	5.0

8. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(करोड़ रुपए)

यद	निम्न को बकाया		निम्न की तुलना में घट-बढ़									
	2007 31 मार्च #	2008 7 मार्च #	सप्ताह		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2006-2007		2007-2008		2007		2008	
			राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आरक्षित मुद्रा	7,09,016	8,72,881	22,573	2.7	1,16,365	20.3	1,63,865	23.1	1,29,015	23.0	1,83,460	26.6
घटक (i+ii+iii)												
(i) संचलन में करेंसी	5,04,225	5,85,209	10,062	1.7	76,085	17.7	80,985	16.1	74,761	17.3	78,449	15.5
(ii) रिजर्व बैंक के पास बैंकर की जमा	1,97,295	2,82,784	12,678	4.7	42,265	31.2	85,489	43.3	54,636	44.4	1,05,008	59.1
(iii) रिजर्व बैंक के पास "अन्य" जमा	7,496	4,888	-167	-3.3	-1,984	-28.9	-2,609	-34.8	-381	-7.2	3	0.1
स्रोत (i+ii+iii+iv+v)												
(i) रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण : उसमें से - केंद्र को	5,752	-1,50,024	22,299		-9,486		-1,55,776		-32,783		-1,48,675	
	2,136	-1,49,983	22,299		-6,618		-1,52,118		-32,933		-1,48,524	
(ii) बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिजर्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण - उसमें से: बैंकों को (नाबार्ड सहित)	9,173	2,530	31		-4,097		-6,642		-4,113		-555	
	7,635	1,147	351		-4,095		-6,488		-3,865		-554	
(iii) रिजर्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	8,66,153	12,27,575	26,767	2.2	1,85,606	27.6	3,61,422	41.7	2,21,551	34.8	3,68,985	43.0
(iv) जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता	8,286	8,851	—	—	-606	-6.9	564	6.8	-548	-6.3	703	8.6
(v) रिजर्व बैंक की निवल मुदेतर देयता	1,80,348	2,16,051	26,524	14.0	55,051	44.4	35,703	19.8	55,092	44.4	36,999	20.7

9. चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रेपो/रिवर्स रेपो की नीलामी

(करोड़ रुपये)

चलनिधि समायोजन सुविधा (तारीख)	रेपो अवधि (दिन)	रेपो (बढ़ाना)					रिवर्स रेपो (घटाना)					चलनिधि में की गई निवल वृद्धि(+)/कमी(-) (6-11)	बकाया राशि @
		प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		कट-ऑफ दर (%)	प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		कट-ऑफ दर (%)		
		संख्या	राशि	संख्या	राशि		संख्या	राशि	संख्या	राशि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3 मार्च 2008	1	—	—	—	—	—	1	2,500	1	2,500	6.00	-2,500	2,500
4 मार्च 2008	1	—	—	—	—	—	2	2,515	2	2,515	6.00	-2,515	2,515
5 मार्च 2008	2	—	—	—	—	—	2	5,500	2	5,500	6.00	-5,500	5,500
7 मार्च 2008	3	—	—	—	—	—	9	8,045	9	8,045	6.00	-8,045	8,045

@ : रातभर के रेपो को घटाकर।

' — ' : नीलामी में कोई बोली प्राप्त नहीं हुई।

10. भारत सरकार खजाना बिलों की नीलामी

(करोड़ रुपये)

नीलामी की तारीख	निर्गम की तारीख	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियाँ			स्वीकृत बोलियाँ			भा.रि. बैंक पर भार	कुल निर्गम (8+9+10)	भारित औसत मूल्य	कट-ऑफ मूल्य पर निहित आय (प्रतिशत)	निर्गम की तारीख को बकाया राशि (अंकित मूल्य)
			सं.	कुल अंकित मूल्य		सं.	कुल अंकित मूल्य						
				प्रतियोगी	अप्रतियोगी		प्रतियोगी	अप्रतियोगी					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91-दिवसीय खजाना बिल													
2007-2008													
4 जुलाई	6 जुलाई	500	106	6,246	7,100	22	500	7,100	—	7,600	98.50	6.1908	70,356
3 अक्टू.	5 अक्टू.	3,500	94	5,383	4,000	80	3,500	4,000	—	7,500	98.28	7.1443	59,853
2 जनवरी	4 जनवरी	500	71	3,411	1,000	7	500	1,000	—	1,500	98.28	7.0196	38,498
5 मार्च	7 मार्च	500	65	2,418	2,200	31	500	2,200	—	2,700	98.20	7.3937	42,067
182-दिवसीय खजाना बिल													
2007-2008													
11 जुलाई	13 जुलाई	1,500	78	4,006	—	30	1,500	—	—	1,500	97.10	6.0535	23,301
3 अक्टू.	5 अक्टू.	2,500	71	4,990	—	48	2,500	—	—	2,500	96.51	7.3169	31,141
9 जनवरी	11 जनवरी	1,500	62	3,102	—	29	1,500	—	—	1,500	96.55	7.2308	22,880
5 मार्च	7 मार्च	500	57	1,828	855	34	500	855	—	1,355	96.41	7.5326	17,585
364-दिवसीय खजाना बिल													
2007-2008													
4 जुलाई	6 जुलाई	1,000	93	6,255	—	20	1,000	—	—	1,000	93.41	7.1663	55,325
10 अक्टू.	12 अक्टू.	3,000	154	11,232	—	31	3,000	—	—	3,000	93.19	7.3739	58,301
2 जनवरी	4 जनवरी	1,000	98	6,415	—	8	1,000	—	—	1,000	93.16	7.3855	58,034
27 फरवरी	29 फरवरी	1,000	71	3,690	—	14	1,000	—	—	1,000	93.03	7.5476	60,754

टिप्पणियाँ : 1. 91 दिवसीय खजाना बिलों हेतु 6 नवम्बर 1998 को एकसमान मूल्य नीलामी का प्रारंभ हुआ। नीलामी का फॉर्मेट 11 दिसम्बर 2002 से बहु मूल्य नीलामी में परिवर्तित किया गया है।

2. 2 जून 1999 से प्रभावी 364 दिवसीय खजाना बिलों के मामले में नीलामी में अप्रतियोगिता बोलियों को अनुमति दी गई है।

3. कट-ऑफ कीमत पर निहित लाभ को वास्तविक /364 दिवस के आधार पर गिनती करने की प्रथा को 27 अक्टूबर 2004 को नीलामी से वास्तविक /365 दिवस की गिनती की प्रथा में कर दिया गया परिवर्तित है।

11. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास संचयी नकद जमा शेष

(करोड़ रुपये)

को समाप्त पखवाड़ा	दिनांक													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29 फरवरी 2008	16 फरवरी	17 फरवरी	18 फरवरी	19 फरवरी	20 फरवरी	21 फरवरी	22 फरवरी	23 फरवरी	24 फरवरी	25 फरवरी	26 फरवरी	27 फरवरी	28 फरवरी	29 फरवरी
	2,38,820	4,77,640	7,22,564	9,87,013	12,48,178	15,06,657	17,68,673	20,30,690	22,92,707	25,58,629	28,14,731	30,73,564	33,29,359	35,83,185
14 मार्च 2008	1 मार्च	2 मार्च	3 मार्च	4 मार्च	5 मार्च	6 मार्च	7 मार्च	8 मार्च	9 मार्च	10 मार्च	11 मार्च	12 मार्च	13 मार्च	14 मार्च
	2,56,453	5,12,906	7,76,264	10,41,060	13,07,429	15,74,001	18,39,263							

टिप्पणी : ये आंकड़े पखवाड़े के दौरान भा.रि. बैंक के पास संचयी आधार पर रखी गई अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल नकद जमा शेष के हैं।

12. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी किए गए जमा प्रमाण-पत्र

(करोड़ रुपये)

को समाप्त पखवाड़ा	कुल बकाया राशि #	पखवाड़े के दौरान जारी #	ब्याज दर (प्रतिशत) @
1	2	3	4
5 जन. 2007	68,928	2,449	8.26 — 9.25
13 अप्रैल 2007	93,807	2,539	9.50 — 11.50
6 जुलाई 2007	1,02,992	4,186	6.25 — 9.69
12 अक्टू. 2007	1,22,142	9,398	6.87 — 10.00
4 जनवरी 2008	1,27,154	9,453	6.87 — 9.82
18 जनवरी 2008	1,29,124	7,099	7.90 — 9.21

@ : प्रभावी वार्षिक ब्याज दर परास।

13. कंपनियों द्वारा जारी किए गए वाणिज्यिक पत्र (अंकित मूल्य पर)

(करोड़ रुपए)

को समाप्त पखवाड़ा	कुल बकाया राशि	पखवाड़े के दौरान सूचित	ब्याज दर (प्रतिशत) @
1	2	3	4
15 जन. 2007	23,758	1,255	8.30 — 9.58
15 अप्रैल 2007	19,013	1,952	10.00 — 14.00
15 जुलाई 2007	28,129	4,200	4.00 — 11.50
15 अक्टूबर 2007	38,495	6,977	7.00 — 13.00
31 दिसम्बर 2007	40,243	6,477	7.60 — 12.00
15 जनवरी 2008	42,392	5,589	7.35 — 12.50

@ : पखवाड़े के दौरान निर्गमों पर लागू प्रतिरूपी प्रभावी वार्षिक बड़ा दर का परास।

14. थोक मूल्यों के सूचकांक (आधार : 1993-94=100)

मद / समाप्त सप्ताह	भार	2007		2008	निम्नलिखित पर प्रतिशत उतार चढ़ाव			
		24 फर.	29 दिस.*	23 फर. #	सप्ताह	महीना	मार्च के अंत में	वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सभी पण्य	100.00	209.0	216.7	219.5	0.3	0.9	4.3	5.0
प्राथमिक वस्तुएं	22.02	214.9	221.8	228.4	1.4	2.1	5.8	6.3
(i) फल और सब्जियां	2.92	222.2	216.6	226.9	3.6	2.9	2.4	2.1
ईंधन, विद्युत, प्रकाश और लुब्रिकैंट	14.23	318.9	332.7	336.9	—	0.7	5.2	5.6
विनिर्मित उत्पाद	63.75	182.4	189.0	190.3	0.1	0.5	3.4	4.3
(i) चीनी, खांडसारी और गुड़	3.93	165.5	151.5	151.6	-0.5	-0.1	-7.5	-8.4
(ii) खाद्य तेल	2.76	163.7	176.8	185.3	2.1	3.5	13.3	13.2
(iii) सीमेंट	1.73	201.5	219.9	221.2	—	0.6	5.1	9.8
(iv) लोहा और इस्पात	3.64	260.6	279.1	282.8	-0.4	1.0	7.6	8.5

* : उपलब्ध अद्यतन अंतिम आंकड़े।

स्रोत : आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

15. साधारण शेयर मूल्यों का बीएसई संवेदी सूचकांक तथा एनएसई निफ्टी सूचकांक - मुंबई

	2007	2008				
	7 मार्च	3 मार्च	4 मार्च	5 मार्च	6 मार्च +	7 मार्च
1	2	3	4	5	6	7
बीएसई संवेदी सूचकांक (1978-79=100)	12579.75	16677.88	16339.89	16542.08		15975.52
एसएंडपी सीएनएक्स निफ्टी (3.11.1995=1000)	3626.85	4953.00	4864.25	4921.40		4771.60

+ : बाजार बंद।

16. मांग मुद्रा बाजार में औसत दैनिक पण्यवर्त (टर्नओवर)*

(करोड़ रुपए)

	समाप्त सप्ताह						
	25 जनवरी 2008	1 फरवरी 2008	8 फरवरी 2008	15 फरवरी 2008	22 फरवरी 2008	29 फरवरी 2008	7 मार्च 2008
1	2	3	4	5	6	7	8
1. बैंक							
क) लिए गए उधार	15,467	12,242	12,538	8,699	9,762	9,874	9,099
ख) दिए गए ऋण	17,259	13,646	13,800	10,012	10,876	10,589	10,095
2. प्राथमिक व्यापारी							
क) लिए गए उधार	1,895	1,524	1,321	1,333	1,135	728	1,011
ख) दिए गए ऋण	103	120	59	20	21	12	15
3. कुल							
क) लिए गए उधार	17,362	13,765	13,859	10,032	10,898	10,601	10,110
ख) दिए गए ऋण	17,362	13,765	13,859	10,032	10,898	10,601	10,110

टिप्पणी : 1. ये आंकड़े सप्ताह भर की दैनिक मांग मुद्रा पण्यवर्त का औसत हैं (शनिवार से शुक्रवार)।

* : इन आंकड़ों में सहभागियों द्वारा सूचित कुल लेनदेन के 90-95 प्रतिशत का शुमार हो जाता है।

2. 6 अगस्त 2005 से बैंक और प्राथमिक व्यापारी पात्र सहभागी हैं।

17. सरकारी प्रतिभूति बाजार में पण्यवर्त (अंकित मूल्य)*

(करोड़ रुपए)

मद	समाप्त सप्ताह					
	1 फरवरी 2008	8 फरवरी 2008	15 फरवरी 2008	22 फरवरी 2008	29 फरवरी 2008	7 मार्च 2008
1	2	3	4	5	6	7
I. तत्काल (आउटराइट) लेनदेन						
क) भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	87,994	92,110	1,10,789	73,039	70,870	56,095
ख) राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	1,176	353	303	1,724	1,174	162
ग) 91 - दिवसीय खजाना बिल	537	645	729	453	447	670
घ) 182 - दिवसीय खजाना बिल	618	1,805	1,160	604	298	274
ङ) 364 - दिवसीय खजाना बिल	3,193	1,233	3,299	2,831	1,359	1,829
II. भारतीय रिजर्व बैंक *	95	1	11	201	2,690	2,135

@ : रेपो लेनदेन को छोड़कर।

* : भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद में उसके अन्य कार्यालयों के लेनदेन भी शामिल हैं।

18. विदेशी मुद्रा बाजार में पण्यवर्त (टर्नओवर)

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

स्थिति की तारीख	वणिज्य						अंतर बैंक					
	एफ सी वाई / आइ एन आर			एफ सी वाई / एफ सी वाई			एफ सी वाई / आइ एन आर			एफ सी वाई / एफ सी वाई		
	हाजिर	वायदा	वायदा निरसन	हाजिर	वायदा	वायदा निरसन	हाजिर	अदला बदली	वायदा	हाजिर	अदला बदली	वायदा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
खरीद												
18 फरवरी 2008	1,497	875	477	710	1,124	1,128	2,846	3,942	316	4,737	961	101
19 फरवरी 2008	2,082	1,622	728	787	1,042	1,204	5,009	8,114	471	5,166	1,786	232
20 फरवरी 2008	3,342	2,405	894	816	1,051	815	6,078	12,442	325	5,299	1,979	452
21 फरवरी 2008	2,541	1,343	1,000	852	1,216	1,025	7,141	10,292	798	5,617	2,525	154
22 फरवरी 2008	2,476	947	399	715	1,112	1,208	3,650	7,397	1,075	3,841	2,123	245
बिक्री												
18 फरवरी 2008	1,261	1,096	309	824	1,116	1,182	2,708	5,304	384	4,604	989	145
19 फरवरी 2008	2,286	1,896	444	785	1,025	1,279	4,945	6,988	600	5,193	1,807	266
20 फरवरी 2008	2,483	3,505	722	942	1,073	832	5,637	12,968	682	5,147	2,169	501
21 फरवरी 2008	2,205	2,480	447	789	1,208	1,024	6,877	9,662	1,077	5,654	2,267	207
22 फरवरी 2008	1,997	1,338	444	728	1,001	1,342	3,643	6,695	976	3,645	2,030	218

एफ सी वाई = विदेशी मुद्रा ।

आइ एन आर = भारतीय रुपया ।

टिप्पणी : ये आंकड़े वणिज्य और अंतर बैंक लेन-देन के कारण विदेशी मुद्रा की खरीद और बिक्री से संबंधित हैं।

19. राष्ट्रीय शेयर बाजार में हुए कंपनी ऋण कारोबार की साप्ताहिक मात्रा

(करोड़ रुपए)

	समाप्त सप्ताह					
	1 फरवरी 2008	8 फरवरी 2008	15 फरवरी 2008	22 फरवरी 2008	29 फरवरी 2008	7 मार्च 2008
1	2	3	4	5	6	7
राशि	26.93	145.84	27.93	72.99	89.53	26.65

टिप्पणी : 8 अक्टूबर 2005 से थोक ऋण बाजार घटक में प्रत्येक शनिवार को व्यापार बंद रहेगा ।

स्रोत : भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार लि.

20. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल (अंकित मूल्य)

(करोड़ रुपए)

धारक	7 मार्च 2008					कुल खजाना बिलों में घट-बढ़	
	अलग-अलग परिपक्वता वाले खजाना बिल				कुल (2+3+4+5)	सप्ताह में	मार्च के अंत में
	14 दिवसीय (मध्यवर्ती)	91 दिवसीय (नीलामी)	182 दिवसीय (नीलामी)	364 दिवसीय (नीलामी)			
1	2	3	4	5	6	7	8
भारतीय रिजर्व बैंक	—	—	—	—	—	—	—
बैंक	—	7,582	7,888	29,702	45,172	-3,508	-6,950
राज्य सरकारें	52,416	25,935	1,480	4,531	84,362	-3,058	10,959
अन्य	638	8,550	8,217	26,521	43,925	553	13,651

21. भारत सरकार : दीर्घावधि और मध्यावधि उधार

(भा.रि.बैंक पर भार (डिवाल्मेंट)/ निजी जमा तथा खुला बाजार परिचालनों में बिक्री / खरीद)

(अंकित मूल्य करोड़ रुपए में)

	जुटाई गई सकल राशि			जुटाई गई निवल राशि		
	2007-2008 (7 मार्च 2008 तक)	2006-2007 (9 मार्च 2007 तक)	2006-2007	2007-2008 (7 मार्च 2008 तक)	2006-2007 (9 मार्च 2007 तक)	2006-2007
1	2	3	4	5	6	7
1. कुल जिसमें :	1,56,000	1,39,000	1,46,000	1,11,196	1,00,986	1,06,921
1.1 भारिबैं पर भार / निजी जमा	—	—	—	—	—	—
2. भारिबैंके खुला बाजार परिचालन - बिक्री	6,812	5,031	5,845	—	—	—
खरीद	12,670	720	720	—	—	—

22. द्वितीयक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का कारोबार (अंकित मूल्य)[@]

(राशि करोड़ रुपए में)

यद	29 फरवरी 2008 को समाप्त सप्ताह			7 मार्च 2008 को समाप्त सप्ताह		
	राशि	परिपक्वता आय अनुपात (% वार्षिक) संकेतिक **		राशि	परिपक्वता आय अनुपात (% वार्षिक) संकेतिक **	
		न्यूनतम	अधिकतम		न्यूनतम	अधिकतम
1	2	3	4	5	6	7
I. तत्काल (आउटराइट) लेन देन						
1. भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां						
परिपक्वता वर्ष						
2007-08	—	—	—	—	—	—
2008-09	157	7.5362	8.2802	90	8.1223	8.1300
2009-10	2,405	7.4593	7.6433	1,795	7.4101	7.5274
2010-11	548	7.4917	7.6262	628	7.4697	7.5851
2011-12	7	—	—	15	7.5523	7.5704
2012-13	72	7.6301	7.6301	30	7.5320	7.6445
2013-16	1,942	7.5164	7.7147	1,277	7.4726	7.7038
2016-17	655	7.5510	7.6245	531	7.5198	7.6351
2017 से आगे	29,648	7.5492	8.5369	23,682	7.5034	8.5129
2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	587	7.7400	8.3498	81	7.6399	8.0837
3. खजाना बिल (शेष परिपक्वता अवधि दिनों में)						
क) 14 दिन तक	5	7.2475	7.2475	10	5.7524	5.7524
ख) 15 - 91 दिन	395	6.5006	7.4999	712	5.9996	7.3521
ग) 92 - 182 दिन	281	7.3000	7.4600	446	7.2699	7.5110
घ) 183 - 364 दिन	370	7.4000	7.5800	217	6.4500	7.4000
II. भा.रि.बैं.* : बिक्री	225			195		
: खरीद	2,465			1,940		
III. रेपो लेनदेन * (भा. रि. बैं. से इतर)	राशि	दरें (% वार्षिक)	दरें (% वार्षिक)	राशि	दरें (% वार्षिक)	दरें (% वार्षिक)
		न्यूनतम	अधिकतम		न्यूनतम	अधिकतम
1. भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	91,690	1.00 (1)	8.00 (105)	75,909	3.00 (1)	7.35 (5)
2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	451	1.50 (1)	7.90 (3)	485	3.85 (1)	7.05 (3)
3. 91 - दिवसीय खजाना बिल	1,307	6.10 (1)	7.65 (3)	311	5.50 (1)	6.60 (2)
4. 182 - दिवसीय खजाना बिल	415	2.50 (3)	6.60 (3)	—	—	—
5. 364 - दिवसीय खजाना बिल	11,386	2.50 (1)	8.35 (3)	8,080	6.05 (1)	7.25 (3)
IV. भा.रि.बैं. : रेपो * ^	54,445	—	7.75	—	—	—
: रिवर्स रेपो !	9,570	—	6.00	18,560	—	6.00

@ : भा.रि.बैं. के एसजीएल खातों में दर्ज सूचना में 'वेन इश्यूड' लेनदेन शामिल है।

* : भा.रि.बैं. बिक्री और खरीद में अन्य कार्यालयों में हुए लेनदेन भी शामिल हैं।

** : न्यूनतम और अधिकतम संकेतिक परिपक्वता-आय अनुपात (% वार्षिक) गैर मानक समूह (5 करोड़ रुपये से कम) के कारोबार को छोड़कर दर्शाया गया है।

* : कारोबार का पहला चरण (फ्रस्ट लेग) दर्शाता है।

^ : दिनांक 5 जून 2000 से प्रभावी चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रेपो नीलामी से संबंधित आंकड़े (देखें सारणी 9)।

! : चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिवर्स रेपो नीलामी शामिल है।

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े रेपो अवधि दर्शाते हैं।

आंकड़ों के पूर्णांकन के कारण हो सकता है घटक मदों का जोड़ कुल जोड़ से मेल न खाए।

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक में प्रयुक्त प्रतीक .. = अनुपलब्ध - = शून्य / नगण्य # = अनंतिम

उपयुक्त जानकारी इंटरनेट पर <http://www.wss.rbi.org.in> से सीधे प्राप्त की जा सकती है।

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक का एक वर्ष और तीन वर्ष के लिए शुल्क (डाक व्यय सहित) भारत में क्रमशः 550 रुपए और 1,500 रुपए तथा विदेश में क्रमशः 34 अमरीकी डॉलर और 85 अमरीकी डॉलर हैं।

श्रीमती रेखा मिश्रा द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई - 400 001 के लिए स्वरूपबद्ध, प्रकाशित और उनके द्वारा ऑनलुकर प्रेस, 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 टेलि.: 2218 3544 फॅक्स : (91-22) 2218 8702 में मुद्रित।